



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 95) पटना, शुक्रवार, 9 जनवरी 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

8 जून 2013

सं0 1 स्थां-208/2011-835/वि०स०।—सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-1661, दिनांक 10.09.2010 द्वारा प्रवृत्त रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प सं०-7556, दिनांक 14.07.2010 एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 17.05.2013 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में श्री रूप नारायण मिश्र, अवर सचिव, बिहार विधान सभा को दिनांक 01.12.2012 के प्रभाव से पी०बी०-3-15600-39100/- रू० के वेतनमान में ग्रेड वेतन 7600/- रू० के साथ तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत करते हुए तदनुसार वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है। उप-सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति के समय इन्हें वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

श्री रूप नारायण मिश्र, अवर सचिव का वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22(i)(ए)(i) के तहत किया जायेगा। वेतनमान आर्थिक लाभ तक ही सीमित रहेगा। उच्चतर वेतनमान के पदनाम, कर्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होगा।

श्री मिश्र, अवर सचिव के तृतीय एम०ए०सी०पी० के लाभ के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर प्रदत्त तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा तथा उनसे अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी एवं कम भुगतान की गई राशि की भरपाई कर दी जाएगी।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
प्रमोद कुमार सिंह,
अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 95-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>